

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 31—जून 6, 2014 (ज्येष्ठ 10, 1936)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31—JUNE 6, 2014 (JYAISTHA 10, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी)

हैदराबाद-500 052, दिनांक 7 मई 2014

सं. 15011/4/2014-स्था.--गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21017/14/2009-IPS.III दिनांक 19.02.2014 के अनुसरण में श्री एन. आर. के. रेड्डी, भा.पु.से (राज: 1986) को स. व. प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पार्श्व बदली (लेटरल शिफ्ट) के आधार पर ग्रेड-पे रु. 10,000/- सहित वेतनमान रु. 37,400--67,000/- (पे-बैंड-4) में संयुक्त निदेशक के पद पर दिनांक 01.05.2014 के पूर्वान्वेष्ट से, 21.09.2014 तक यथा, आपके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की बाकी अवधि या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले लागू होगा, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

अरुणा एम. बहुगुणा
निदेशक

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 मई 2014

सं. ई-16014/एनपीए/2013/कार्मिक-2/640--सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में मुख्य कवायद अनुदेशक पद पर पे बैंड-3 (15,600--39,100/-)+ ग्रेड पे रु. 5,400/- में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन साल के लिए नियुक्ति के फलस्वरूप श्री मनीष कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 18.04.2014 (अपराह्न) से सहायक कमांडेन्ट/एक्स के.ओ.सुब, इकाई आई.एस.पी. नासिक का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

(भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय)

नई दिल्ली-110 124, दिनांक 9 मई 2014

सं. 164 - जी.ई. 1/13-2006--श्री आर. एस. रंगराजन, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा दिनांक 04.04.2014 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

सुधा राजन
सहा. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400 085, दिनांक 5 मई 2014

सं. पीडी/7(7)/2013-भर्ती-IV/टीओ(बी)/ईटीजी/4993--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित पदधारियों को तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'बी' के पद पर पे बैंड पीबी-2 रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई, 2013 के पूर्वाह्न से, श्रीमती नित्या देवि राजन, क्रम संख्या 6 जिनकी नियुक्ति तिथि 22 जुलाई, 2013 के पूर्वाह्न से है को छोड़कर, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदोन्नति तिथि
1	श्री दिनेश कुमार मौर्य	एसए/डी
2	श्री फापले सुहास बबनराव	एसए/डी
3	श्री विजय धनराज लिखार	एसए/सी
4	श्री नरेन्द्र सिंह	एसए/सी
5	श्री सुदीप वासु	एसए/डी
6	श्रीमती नित्या देवि राजन	एसए/डी
7	श्री अनोज कुमार	एसए/डी

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक, राजस्थान)

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में

जयपुर-302001, दिनांक 16 मई 2014

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/564--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :--

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	2	3
01	017079	विजयतास एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
02	040761	साईजेंट हॉस्पिटलिटी प्राईवेट लिमिटेड
03	020524	मीनू एम्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
04	039336	शुभसंकल्प एडूवेन्चर प्राईवेट लिमिटेड
05	038322	कृष्णकृपा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
06	024167	ललित टेम्पल कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
07	035381	एलटीएस इन्फोसोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
08	024779	सुपरफाईन बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
09	027255	जयपुर रेसकोर्स प्राईवेट लिमिटेड
10	023500	रघुपति सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11	028017	डीम क्लोथ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
12	042093	एनसीएम ट्रान्स प्राईवेट लिमिटेड
13	043198	इनोवेटिव वेब मार्केटिंग स्ट्रेटिजिस लिमिटेड
14	035737	बिन्दास एडवरटाईजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
15	002640	बियूटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
16	028967	जय श्री बिल्डफार्मस प्राईवेट लिमिटेड
17	010094	टी.सी. गोसेज प्राईवेट लिमिटेड
18	022721	सौम्या बन्सल एडवाइजरी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
19	042069	जी लाईन सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
20	021936	श्री सर्वमंगल विनायक कॉमुनिटी प्राईवेट लिमिटेड
21	010498	मनोहर इन्सूलेशन प्राईवेट लिमिटेड
22	024067	विक्रान्त ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
23	025440	वेली व्यू बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
24	028086	अपना सपना ट्रेडमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
25	029388	डिस्कवरी प्राइम ट्यूर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
26	025282	मोडरेट कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
27	023695	श्री आदिनाथ बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
28	031382	सनराईज शूज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
29	033880	सेफ लाईफकेयर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
30	027951	फ्लूड इन्टरवेब प्राईवेट लिमिटेड
31	019586	टीम टाइम्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
32	039109	नरहरि टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
33	031656	महावीर महिमा होम्स प्राईवेट लिमिटेड
34	022535	अर्चनसोल स्टूडियो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
35	039219	जीवीसी लैण्ड शेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
36	036070	सनराईज सुपर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
37	034115	रिथम ऑनलाईन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
38	033258	सर्वदेवा कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
39	030611	प्रज्ञा प्राईम कन्सलटेन्ट एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
40	037977	थार इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
41	029387	अर्ज सोफ्ट सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
42	033172	राघव बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
43	029010	पारस टेक्सफेब प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दिकी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार एवं सहायक शासकीय समापक

राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 23 अप्रैल 2014

सं. आर.ओ.सि./560(5)/2014/223--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.सं.	पं.सं.	कम्पनी का नाम
01	15-12470	मेसर्स पान् इन्डिआ हस्पीटालीटी प्राईवेट लिमिटेड
02	15-08936	मेसर्स प्रगती एमुजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
03	15-04018	मेसर्स लोटस् पल्प एनड पेपर् प्राईवेट लिमिटेड

वी. मीश्रा

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

ओडिसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 5 मई 2014

सं आर.ओ.सि./560(5)/2014/767--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
01	15-13195	मेसर्स रीयाज लजीष्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
02	15-13201	मेसर्स जगमोहन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
03	15-13205	मेसर्स जेपिएम टेलिपावार प्राईवेट लिमिटेड
04	15-13206	मेसर्स फोर्स लूत्रिकान्टस् प्राईवेट लिमिटेड
05	15-13211	मेसर्स सम्पद् कमरसिआल (इन्डिआ) प्राईवेट लिमिटेड
06	15-13215	मेसर्स साई आशिष कस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
07	15-13221	मेसर्स दत्तात्रेय ग्रीन इफ्राकन प्राईवेट लिमिटेड
08	15-13224	मेसर्स एजी टेक्नो पार्क लिमिटेड
09	15-13226	मेसर्स बालून्केस्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
10	15-13227	मेसर्स साईसूभ रिअल् मार्केटिंग् प्राईवेट लिमिटेड
11	15-13228	मेसर्स यूनिक् होम् क्रिएसन्स प्राईवेट लिमिटेड
12	15-13232	मेसर्स क्रिएटिभ मल्टि स्पेसालीटी सरबिसेस प्राईवेट लिमिटेड
13	15-13236	मेसर्स स्वस्तिक इन्डिआ टेक्नोप्रोजेक्टस् लिमिटेड
14	15-13237	मेसर्स भेनजाइल आद्योटेक प्राईवेट लिमिटेड
15	15-13240	मेसर्स आर सी सिकूरिटिज प्राईवेट लिमिटेड
16	15-13242	मेसर्स एए लकजर एनड लिज्यूर प्राईवेट लिमिटेड
17	15-13247	मेसर्स क्लाइमाक्स इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
18	15-13248	मेसर्स भाओलेट रेज एनटरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
19	15-13250	मेसर्स एम्बिडे एफएमजिसि ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
20	15-11838	मेसर्स एस बि मल् प्राईवेट लिमिटेड
21	15-11017	मेसर्स एस बि जेवेलरिज प्राईवेट लिमिटेड
22	15-11828	मेसर्स मास हेल्थ हेल्पलाइन् प्राईवेट लिमिटेड
23	15-11598	मेसर्स स्थितिबान प्रपरटिज प्राईवेट लिमिटेड
24	15-09288	मेसर्स अरन्य एक्सप्लोरेसन प्राईवेट लिमिटेड

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्टर
ओड़िशा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 7 मई 2014

सं. आर.ओ.सि./5/2014/273--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.सं.	पं.सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
01	15-13252	मेसर्स साई सूरक्षा इन्टेलिजेन्स एनड सिक्यूरिटी सरभिसेस प्राईवेट लिमिटेड
02	15-13253	मेसर्स सन्चार मेडिआ प्राईवेट लिमिटेड
03	15-13254	मेसर्स गेटवेल इन्डिआ सरभिसेस प्राईवेट लिमिटेड
04	15-13255	मेसर्स कस्मो ईन्जिनीअरस प्राईवेट लिमिटेड
05	15-13258	मेसर्स बनदूर्गा टेलि सरभिस प्राईवेट लिमिटेड
06	15-13259	मेसर्स उत्कर्ष सेल्स एनड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
07	15-13260	मेसर्स रिडीम इन्डिआ इन्फ्रा-रिअल प्राईवेट लिमिटेड
08	15-13269	मेसर्स स्माईल इन्डिआ क्रिएसन्स् लिमिटेड
09	15-13276	मेसर्स रुपलटा डेभलपर्स लिमिटेड
10	15-13281	मेसर्स एसकेम मानेजमेन्ट एनड सरभिसेस प्राईवेट लिमिटेड
11	15-13286	मेसर्स जि आर एल् मिनेराल्स प्राईवेट लिमिटेड
12	15-13287	मेसर्स बिनोदिनि होटल्स एनड रेसर्टस प्राईवेट लिमिटेड
13	15-13290	मेसर्स ईन्टरकन्टिनेन्टाल कोलोनिआल हलिडेज प्राईवेट लिमिटेड
14	15-13291	मेसर्स सरभे सूत्र कन्सलटिंग सरभिसेस प्राईवेट लिमिटेड
15	15-13292	मेसर्स आरेल टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
16	15-13293	मेसर्स मात्रभूमि हाप्पि होम्स् प्राईवेट लिमिटेड
17	15-13294	मेसर्स एनके ड्रिम हाउस प्राईवेट लिमिटेड
18	15-13297	मेसर्स मिड् ईस्ट कापिटाल सरभिसेस लिमिटेड
19	15-13298	मेसर्स आदर्स इन्फ्रा डेभलपर्स इन्डिआ प्राईवेट लिमिटेड
20	15-13301	मेसर्स 4आर्मस् वैल्युप्रो प्राईवेट लिमिटेड
21	15-13302	मेसर्स 4आर्मस् रिअलिटि प्राईवेट लिमिटेड
22	15-13304	मेसर्स नेटवर्क फाइनर्स् प्राईवेट लिमिटेड
23	15-13311	मेसर्स गैच इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
24	15-13319	मेसर्स ओरीग्रिन इष्टकन् प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
25	15-13321	मेसर्स राज कुमार कमर्सिआल प्राइवेट लिमिटेड
26	15-13322	मेसर्स टोटाल हस्पिटाल सल्यूसन्स् प्राइवेट लिमिटेड
27	15-13327	मेसर्स ओरिबोस डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
28	15-13329	मेसर्स आदर्स मेडिएड इन्डिआ प्राइवेट लिमिटेड
29	15-13334	मेसर्स कलिंग ईस्टकन प्राइवेट लिमिटेड
30	15-13336	मेसर्स खटू रिअलकन प्राइवेट लिमिटेड
31	15-13337	मेसर्स श्री डेजाइनर टाईल्स प्राइवेट लिमिटेड
32	15-13339	मेसर्स बाबू यसराज प्रपरटिज प्राइवेट लिमिटेड
33	15-13340	मेसर्स ईनफिनिटि ईन्फ्राप्रपरटिज एनड डेभलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
34	15-13341	मेसर्स आईएनसिए मार्केट प्लस लिमिटेड
35	15-13345	मेसर्स साईसिधि ईन्फ्रा एनड प्रमोटर् प्राइवेट लिमिटेड
36	15-13346	मेसर्स आक्मे आग्रो भेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	15-13349	मेसर्स अभिराम ईन्फ्राष्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्टर
ओड़िशा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग-793001, 16 मई 2014

सं क./र./शि./560(5)/2014—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है :—

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1.	U01400AS2012PLC010917	प्राइमलेन्ड आग्रो इन्डसट्रीस लिमिटेड
2.	U24139AS2008PTC008657	सियागं प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
3	U30007ML1997PTC005287	भी डी पी सी प्राइवेट लिमिटेड
4.	U85110AS1998PTC005292	भायटल हेल्तकेयर सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्टार
शिलांग

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 11th April 2014

No.F.20/2014-SCA(I)--Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Krishnamurthy R. Padasalgi, a Member of Karnataka Judicial Service as Additional Registrar, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the of forenoon 24th March, 2014.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

The 6th May 2014

No. F. 20/2014-SCA(I)--Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Pankaj Bhandari, an Officer in the cadre of District Judge and posted as Registrar (Vigilance), Rajasthan High Court, Jodhpur, as Registrar in Supreme Court of India, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the afternoon of 30th April, 2014.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY)

Hyderabad-500 052, the 7th May 2014

No.15011/4/2014-Estt.---In pursuance of MHA O.M. No.I-21017/14/2009-IPS.III Dated 19.02.2014, Shri N.R.K. Reddy, IPS (RJ:1986), is appointed as Joint Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad on lateral shift basis in the Pay Scale of Rs.37,400—67,000/- (Pay Band-4) with Grade Pay Rs.10,000/- with effect from the forenoon of 01.05.2014, for the period upto 21.09.2014 i.e. remaining period of his Central deputation tenure or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation.

ARUNA M. BAHUGUNA
Director

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 8th May 2014

No. E-16014/NPA/2013/Pers.II/640--Consequent upon appointment as Chief Drill Instructor in Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad on deputation basis for a period of three years in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5400/-, Shri Manish Kumar Sharma, Assistant Commandant/Exe has relinquished the charge of Assistant Commandant/Exe, CISF Unit, ISP Nasik, w.e.f. 18.04.2014(AN).

Sd/- Illegible
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA,

New Delhi- 110 124, the 9th May 2014

No. 1798 - GE-I/13-2006---Shri R.S. Rangarajan, IA&AS has retired voluntarily wef. 04.04.2014 (FN) from Government Service.

SUDHA RAJAN
Asstt. Comptr. & Auditor General (P)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 5th May 2014

Ref: PD/7(7)/2013-R-IV/TO(B)/ETG/4993--Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officials of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer Grade `B' in the Pay Band of Rs. 9,300-34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2013 except Smt. Nithya Devi Rajan, Sl.No.6 whose date of appointment is with effect from the forenoon of July 22, 2013, in an officiating capacity, until further orders:--

Sl.No.	Name of the officials	Present Grade
1	Shri DINESH KUMAR MAURY	SA D
2	Shri PHAPALE SUHAS BABANRAO	SA D
3	Shri VIJAY DHANRAJ LIKHAR	SA C
4	Shri NARENDRA SINGH	SA C
5	Shri SUDEEP VASU	SA D
6	SMT NITHYA DEVI RAJAN	SA D
7	Shri ANOJ KUMAR	SA D

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES cum OFFICIAL LIQUIDATOR, RAJASTHAN

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following companies

Jaipur – 302001, the 16 May 2014

No. ROC/JPR/560(5)/564--Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the companies act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved :--

S. No.	Company No.	Company Name
1	2	3
1.	017079	VIJAYATAS EXIM PRIVATE LIMITED
2.	040761	CYGNETT HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
3.	020524	MEENU AIMS MARKETING PRIVATE LIMITED
4.	039336	SUBHSANKALP EDUVENTURE PRIVATE LIMITED
5.	038322	KRISHANKRIPA TRADING PRIVATE LIMITED
6.	024167	LALIT TEMPLE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
7.	035381	ALTIUS INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8.	024779	SUPERFINE BUILDCON PRIVATE LIMITED
9.	027255	JAIPUR RACECOURSE PRIVATE LIMITED
10.	023500	RAGHUPATI CEMENTS PRIVATE LIMITED
11.	028017	DREAM CLOTH MARKETING PRIVATE LIMITED
12.	042093	NCM TRANS PRIVATE LIMITED

1	2	3
13	043198	INNOVATIVE WEB MARKETING STRATEGIES LIMITED
14	035737	BINDAS ADVERTISING COMPANY PRIVATE LIMITED
15	002640	BEAUTEX PRIVATE LIMITED
16	028967	JAI SHREE BUILD FARMS PRIVATE LIMITED
17	010094	T.C. GASES PRIVATE LIMITED
18	022721	SAUMYA BANSAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
19	042069	G LINE SUITINGS PRIVATE LIMITED
20	021936	SHRI SARVAMANGAL VINAYAK COMMODITY PVT. LTD.
21	010498	MANOHAR INSULATIONS PVT LTD
22	024067	VIKRANT TRACTORS PRIVATE LIMITED
23	025440	VALLEY VIEW BUILD CON PRIVATE LIMITED
24	028086	APNA SAPNA TRADEMART PRIVATE LIMITED
25	029388	DISCOVERY PRIME TOURS PRIVATE LIMITED
26	025282	MODERATE CASTINGS PRIVATE LIMITED
27	023695	SHREE ADINATH BUILDHOME PRIVATE LIMITED
28	031382	SUNRISE SHOES COMPANY PRIVATE LIMITED
29	033880	SAFE LIFECARE MARKETING PRIVATE LIMITED
30	027951	FLUID INTERWEB PRIVATE LIMITED
31	019586	TEAM TIMES MARKETING PRIVATE LIMITED
32	039109	NARHARI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
33	031656	MAHAVEER MAHIMA HOMES PRIVATE LIMITED
34	022535	ARCHNSOL STUDIO (INDIA) PRIVATE LIMITED
35	039219	GVC LAND SHAPERS PRIVATE LIMITED
36	036070	SUNSHINE SUPER BUILDERS PRIVATE LIMITED
37	034115	RYTHM ONLINE MARKETING PRIVATE LIMITED
38	033258	SARVDEVA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
39	030611	PRAGYA PRIME CONSULTANT AND MARKETING PRIVATE LIM
40	037977	THAAR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
41	029387	URGE SOFT SOLUTION PRIVATE LIMITED
42	033172	RAGHAV BUILDHOME PRIVATE LIMITED
43	029010	PARAS TEXTFAB PRIVATE LIMITED

IMRAN A. SIDDIQUI
Asstt. Registrar of Companies-cum- Asstt. Official Liquidator
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Cuttack-753014, the 23rd April 2014

No. ROC/Sec. 560(5)/2014/223--Notice is hereby given pursuant to Sub- section (5) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the

Registrar of Companies and the said Companies are dissolved:--

Sl No.	No. of Company	Name of Company
1	15-12470	PAN INDIA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
2	15-08936	PRAGATI AMUSEMENT PRIVATE LIMITED
3.	15-04018	LOTUS PULP & PAPER PRIVATE LIMITED

B. MISHRA
ROC-cum-OL
Odisha

In the matter of Companies Act, 1956 and
of the following Companies
Cuttack-753014, the 5th May 2014

No. ROC/Sec. 560(5)/2014/267--Notice is hereby given pursuant to Sub- section (5) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved :--

Sl No.	No. of Company	Name of Company
01	15-13195	RIYAZ LOGISTICS PRIVATE LIMITED
02	15-13201	JAGAMOHAN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
03	15-13205	JPM TELEPOWER PRIVATE LIMITED
04	15-13206	FORCE LUBRICANTS PRIVATE LIMITED
05	15-13211	SAMPAD COMMERCIAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
06	15-13215	SAI ASHISH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
07	15-13221	DATTATREYA GREEN INFRACON PRIVATE LIMITED
08	15-13224	AG TECHNO PARK LIMITED
09	15-13226	BALUNKESWAR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
10	15-13227	SAISUBHA REAL MARKETING PRIVATE LIMITED
11	15-13228	UNIQUE HOME CREATIONS PRIVATE LIMITED
12	15-13232	CREATIVE MULTI SPECIALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
13	15-13236	SWASTIK INDIA TECHNOPROJECTS LIMITED
14	15-13237	VENZILE AGROTECH PRIVATE LIMITED
15	15-13240	R C SECURITIES PRIVATE LIMITED
16	15-13242	AA LUXURE & LEISURE PRIVATE LIMITED
17	15-13247	CLIMAX INFRA PRIVATE LIMITED
18	15-13248	VIOLET RAYS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
19	15-13250	EVERYDAY FMCG TRADING PRIVATE LIMITED
20	15-11838	S B MALL PRIVATE LIMITED
21	15-11017	S B JEWELLERS PRIVATE LIMITED
22	15-11828	MAAS HEALTH HELPLINE PRIVATE LIMITED
23	15-11598	STHITIBAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED
24	15-09288	ARANYA EXPLORATION PRIVATE LIMITED

C.K. DAS
Asst. Registrar of Companies
Odisha

In the matter of Companies Act, 1956 and
of following Companies

Cuttack-753014, the 7th May 2014

No. ROC/Sec. 560(5)/2014/273—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved :--

Sl No.	No. of Company	Name of Company
1	2	3
01	15-13252	SAI SURAKSHYA INTELLIGENCE & SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
02	15-13253	SANCHAR MEDIA PRIVATE LIMITED
03	15-13254	GETWELL INDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
04	15-13255	COSMO ENGINEERS PRIVATE LIMITED
05	15-13258	BANADURGA TELE SERVICE PRIVATE LIMITED
06	15-13259	UTKARSH SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
07	15-13260	REDEEM INDIA INFRA-REAL PRIVATE LIMITED
08	15-13269	SMILE INDIA CREATIONS LIMITED
09	15-13276	ROOPLATA DEVELOPERS LIMITED
10	15-13281	SKM MANAGEMENT AND SERVICES PRIVATE LIMITED
11	15-13286	G R L MINERALS PRIVATE LIMITED
12	15-13287	BINODINI HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
13	15-13290	INTERCONTINENTAL COLONIAL HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
14	15-13291	SURVEY SUTRA CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
15	15-13292	AAREL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
16	15-13293	MATRUBHUMI HAPPY HOMES PRIVATE LIMITED
17	15-13294	NK DREAM HOUSE PRIVATE LIMITED
18	15-13297	MIDEAST CAPITAL SERVICES LIMITED
19	15-13298	ADARSH INFRA DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED
20	15-13301	4ARMS WEALTHPRO PRIVATE LIMITED
21	15-13302	4ARMS REALTY PRIVATE LIMITED
22	15-13304	NETWORK FASTENERS PRIVATE LIMITED
23	15-13311	GGAICH INFOTECH PRIVATE LIMITED
24	15-13319	ORIGREEN ESTCON PRIVATE LIMITED
25	15-13321	RAJ KUMAR COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
26	15-13322	TOTAL HOSPITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
27	15-13327	ORIBOSE DIGITAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
28	15-13329	ADARSH MEDIAID INDIA PRIVATE LIMITED
29	15-13334	KALINGA ESTCON PRIVATE LIMITED

1	2	3
30	15-13336	KHATU REALCON PRIVATE LIMITED
31	15-13337	SHREE DESIGNER TILES PRIVATE LIMITED
32	15-13339	BABU YASHRAJ PROPERTIES PRIVATE LIMITED
33	15-13340	INFINITI INFRAPROPERTIES AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
34	15-13341	INCA MARKET PLUS LIMITED
35	15-13345	SAISIDHI INFRA & PROMOTER PRIVATE LIMITED
36	15-13346	AKME AGRO VENTURES PRIVATE LIMITED
37	15-13349	ABHIRAM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

C. K. DAS
Asstt. Registrar of Companies
Odisha

In the matter of Companies Act, 1956 and
of the following Companies
Shillong-793001, the 16th May 2014

No. ROC/SH/560(5)/2014--Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of below mentioned Companies has this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :--

SL NO.	CIN NUMBER	NAME OF COMPANY
1.	U01400AS2012PLC010917	PRIMELAND AGRO INDUSTRIES LIMITED
2.	U24139AS2008PTC008657	SIANG PLASTIC PVT LTD
3.	U30007ML1997PTC005287	VDPC PACKING PVT LTD
4.	U85110AS1998PTC005292	VITAL HEALTH CARE SYSTEMS PVT LTD

G.C.YADAV
Registrar of Companies
N. E. Region, Shillong

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in